



Date: 21.05.2025

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

Symbol: OSELDEVICE

Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sirs,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find enclosed herewith newspaper advertisement relating to Notice of Extra-Ordinary General Meeting (including details of e-voting) sent on May 20, 2025 to the Members of the Company. The Company published the advertisement in the following newspapers: -

1. Financial Express (All editions) in English Language on 21.05.2025.
2. Jansatta (Delhi edition) in Hindi Language on 21.05.2025.

This is for the information of the exchange and the members.

Thanking You,
For **OSEL DEVICES LIMITED**

RAJENDRA RAVI SHANKER MISHRA
MANAGING DIRECTOR
DIN: 01628136

Encl: Newspaper cuttings

OSEL DEVICES LIMITED

Registered Office: 712, Naurang House, K.G. Marg, Connaught Place, Central Delhi, New Delhi, India - 110001

Head Office: Signature Tower First Floor, Plot No. 3, Sector Knowledge Park- III, Greater Noida- 201308, Uttar Pradesh, India.

Web: www.oseldevices.com | **Email:** info@oseldevices.com | **CIN:** L72200DL2006PLC152027 | **Contact No:** 011-66667621, 0120-6351600



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in



Auction of Government of India Dated Securities for ₹27,000 crore on May 23, 2025

Government of India (GOI) has announced the sale (re-issue) of two dated securities:

Sr.No	Nomenclature	Notified amount Nominal (in ₹Crore)	Earmarked for Retail (in ₹Crore)
1	6.75% GS 2029	15,000	750
2	7.09% GS 2054	12,000	600

GOI will have the option to retain additional subscription up to ₹2,000 crore against each security mentioned above. The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification'). The stocks will be sold through Reserve Bank of India Mumbai Office, Fort, Mumbai - 400001, as per the terms and conditions specified in the General Notification F.No.4(2)-B(W&M)/2018, dated March 26, 2025.


The auction will be conducted using **multiple price method**. The auction will be conducted by RBI, Mumbai Office, Fort, Mumbai on **May 23, 2025 (Friday)**. The result will be announced on the same day and payment by successful bidders will have to be made on **May 26, 2025 (Monday)**.

For further details, please see RBI press release dated **May 19, 2025** on the RBI website - (www.rbi.org.in).

Attention Retail Investors*
(*PFs, Trusts, RRBs, Cooperative Banks, NBFCs, Corporates, HUFs and Individuals)

Retail investors can participate in the auctions for the amounts earmarked for them on a non-competitive basis through a bank or a primary dealer. Individual investors can also place bids as per the non-competitive scheme through the Retail Direct portal (<https://rbiretaildirect.org.in>). For more information, detailed list and telephone numbers of primary dealers/bank branches and application forms please visit RBI website (www.rbi.org.in) or FIMMDA website (www.fimmda.org).

Government Stock offers safety, liquidity and attractive returns for long duration.
"Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money."



OSEL
OSEL DEVICES LIMITED
CIN: L72200DL2006PLC152027
Regd. Office: 712, Naurang House K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi- 110 001
Tel: +91 120 635 1600; Website: www.oseldevices.com; email: info@oseldevices.com

Notice of Extra-Ordinary General Meeting
NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of OSEL Devices Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual means ("OAVM") on **Saturday, June 14, 2025 at 10:00 AM** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM"), in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 and 09/2024 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, Dec 28, 2022, September 25, 2023 and September 19, 2024 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024, to transact the Special Business, as set out in the Notice of EGM. The Notice of the Meeting along with Explanatory Statement and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository. The date of completion of sending email of the notices to the shareholders is May 20, 2025. These documents are also available on Company's website <https://oseldevices.com> for download by the members. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining login details for e-voting. **Demat Holding:** Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Services Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting@nsdl.co.in to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on **Wednesday, 11th June, 2025 at 09:00 A.M. (IST)** and ends on **Friday, 13th June, 2025 at 05:00 P.M. (IST)**. No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Saturday, 7th June, 2025, may obtain the login ID and password by sending a request at www.evoting@nsdl.co.in or RTA, MAS Services Limited at investor@masserv.com. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the EGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Kundan Kumar Mishra, Practicing Company Secretary (Membership No FCS 11769 & CP No. 19844) proprietor of M/s Kundan Kumar Mishra & Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the EGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to the undersigned at cs@oseldevices.com or to RTA at investor@masserv.com (Ph. 011-26387281-83).

For OSEL Devices Limited

Sd/-
RAJENDRA RAVI SHANKER MISHRA
MANAGING DIRECTOR


Date: May 20, 2025
Place: New Delhi



SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LIMITED
Regd. Office: Plot No. 5&6/1, Savli GIDC Estate, Manjusr 391775, District: Vadodara, Gujarat, India
Corporate Office: 17-B, Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai 400 093.
Tel: (91-22) 6645 5685 CIN: L73100GJ2006PLC047837
Website: www.sparc.life Email: secretarial@sparc.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025
The Audited Financial Results of Sun Pharma Advanced Research Company Limited ("SPARC") for the quarter and financial year ended March 31, 2025 has been filed with the Stock Exchanges as per Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
Audited Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2025 is available on Company's website, www.sparc.life, and also on the websites of the Stock Exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com
For and on behalf of the Board
Dilip S. Shanghvi
Chairman
Mumbai, May 19, 2025

Scan the Quick Response (QR) code to access the Audited Financial Results for FY 25





WELCAST STEELS LIMITED
CIN: L27104GJ1972PLC085827
Regd. Office: 115-116, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Ahmedabad 382 415
Ph. 079-22901078 Fax: 079-22901077;
Website: www.welcaststeels.com, Email: info@welcaststeels.com

Audited Financial Results for the Quarter \ Year ended 31 March 2025
(₹ in Lakhs)

Sr No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2024	Quarter Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
1	Total income from operations	2,080.76	2,562.63	8,450.30	9,107.30
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	21.94	179.80	(35.35)	700.84
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.94	179.80	(35.35)	700.84
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	18.86	134.53	(33.74)	524.85
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	16.22	114.70	(42.90)	516.15
6	Equity Share Capital	63.82	63.82	63.82	63.82
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			3908.61	3967.49
8	Earnings Per Share (EPS) (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
a. Basic & Diluted EPS before Extra ordinary items (In ₹)	2.96	21.08	(5.29)	82.24	
b. Basic & Diluted EPS after Extra ordinary items (In ₹)	2.96	21.08	(5.29)	82.24	

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter \ Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The Full format of the Financial Result for the Quarter \ Year ended March 31, 2025 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website (URL: <https://www.welcaststeels.com/Documents/Financials/Quarterly%20Results/March-2025.pdf>). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.



By Order of Board of Directors
For Welcast Steels Limited
Sd/-
(Rajan Harivallabhdas)
Chairman
DIN: 00014265

Place: Ahmedabad
Date: 20 May 2025



PREMIER POLYFILM LIMITED
Registered Office: 305, III Floor, Elite Film, 36 Community Centre, Kalilash Colony Extn., Zamroodpur, New Delhi - 110048.
CIN: L25209DL1992PLC049590. Phone: 011-45537559
Email: compliance.officer@premierpoly.com Website: www.premierpoly.com
NOTICE OF TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), as amended, the **Final Dividend declared for the financial year 2017-18**, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on **November 01, 2025**. The corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In compliance with the Rules, individual notices are being sent to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF as per the aforesaid Rules, the full details of such shareholders are made available on the Company's Website: www.premierpoly.com

In this connection, please note the following:

- In case you hold shares in physical form: Duplicate share certificate(s) will be issued and transferred to IEPF. The original share certificate(s) registered in your name(s) and held by you, will stand automatically cancelled.
- In case you hold shares in electronic form: Your demat account will be debited for the shares liable for transfer to the IEPF.

In the event of valid claim is not received on or before **October 15, 2025**, the Company will proceed to transfer the liable dividend and Equity shares in favor of IEPF authority without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said rules. It may be noted that the concerned shareholders can claim the shares and dividend from IEPF authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online after obtaining Entitlement letter from the Company. The Shareholder(s) may note that in the event of transfer of their unclaimed dividends and shares to the IEPF Demat Account (including all benefits accruing on such shares, if any), the concerned shareholder(s) are entitled to claim the same from the IEPF Authority by submitting an online application in the prescribed e-Form IEPF-5, available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same, duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) to the Company at its Registered Office along with the requisite documents enumerated in e-Form IEPF-5.

In case the shareholders have any queries or require any assistance on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents at Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, New Delhi - 110062, Email: beetalrta@gmail.com

For Premier Polyfilm Limited
Sd/-
Heena Soni
Company Secretary & Nodal Officer

Place : New Delhi
Date: 20-05-2025

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



EITA INDIA LIMITED
CIN: L51109WB1983PLC035968
Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata-700 069, Phone: 033-22453203
E-mail: ells.ca@eitan.com, Website: www.eitan.com

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held at its Registered office at 20B Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata-700069 on **Wednesday 28th May, 2025 at 2.30 p.m.**, inter alia to consider and take on record the Audited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and year ended **31st March, 2025**.


By Order of the Board
For EITA India Limited
Sd/-
Date: 20.05.2025
Place: Kolkata

Lunkaran Sharma
Whole-time Director

The Notice is also available on the Company's website at www.eitan.com and on the Stock Exchange website at www.cse-india.com

PUBLIC NOTICE
We, **TI Clean Mobility Private Limited**, is an electric three-wheeler manufacturing company in India. These vehicles are operational throughout India. Electric vehicles reduce greenhouse gas emissions by displacing the use of conventional fossil fuel-powered vehicles in the transportation sector.
We are undertaking a project for quantifying the environmental attributes of our electric vehicles, for "Registration and Certification of Carbon Credits", as per voluntary standards of Verra. As part of this process, **TI Clean Mobility Private Limited**, in collaboration with **Kosher Climate India Pvt Ltd.**, is conducting national-level stakeholder consultations as per Verra standard. This is to explain the sustainability benefits and to gather feedback on social and environmental aspects of the project.
Meetings will be held at various authorized dealer locations pan-India, between May 27-28th 2025. All interested stakeholders are requested to attend and provide their valuable inputs. Anyone unable to attend this meeting in person can send their feedback to the below contact details on or before June 10th 2025.
Visit <https://shorturl.at/AHGz7> to know the state wise meeting location details. For any clarifications, please contact the below representative.
Contact Details:
Name: Pradeep Ramachandran
Phone Number: +91 97456 55699
Email ID: PradeepR@tcm.murugappa.com, preetha@kosherclimate.com

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214



ZIM LABORATORIES LIMITED
Registered Office: Sadoday Gyan (Ground Floor) Opp. NADT, Nelson Square, Nagpur - 440 013, Maharashtra, India.
CIN : L99999MH1984PLC032172 Website : www.zimlab.in

STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2025
(Rs. in Lakhs, unless otherwise stated)


Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations	10,873.30	11,786.28	37,903.10	36,742.44
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional items)	810.84	1,099.96	1,800.94	2,364.24
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	810.84	1,099.96	1,800.94	2,364.24
Net Profit / (Loss) for the period (after tax and exceptional items)	488.45	808.56	1,216.50	1,724.63
Total Comprehensive Income for the period	449.21	801.50	1,213.75	1,699.73
Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs.10 per share)	4,872.58	4,872.58	4,872.58	4,872.58
Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	--	--	20,351.17	19,002.00
Earnings per share (not annualised)				
a) Basic	1.01	1.66	2.50	3.54
b) Diluted	1.01	1.66	2.50	3.54

Note : 1. Key Standalone Financial Information of the company is given below :

Particulars	Quarter Ended 31.03.2025	Quarter Ended 31.03.2024	Year Ended 31.03.2025	Year Ended 31.03.2024
Income from Operations	10,851.51	11,738.72	37,563.55	36,547.32
Profit / (Loss) before Tax	864.85	1,080.31	1,791.21	2,303.97
Profit / (Loss) after Tax	642.08	789.03	1,174.40	1,675.57
Total comprehensive income	516.89	785.47	1,120.56	1,637.36


2. The above is an extract from the detailed format of the audited Standalone and Consolidated results for the quarter and year ended 31st March, 2025, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results is available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) as well as on the Company's website (www.zimlab.in). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 20th May, 2025. There are no qualifications in the audit report issued for the year ended 31st March 2025.



Dr. Anwar S. Daud
Managing Director

Nagpur. Dated : 20th May 2025



TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
Registered Office:
Torrent House, Off Ashram Road, Ahmedabad - 380 009, Gujarat, India.
Ph. : + 91 79 26599000 Fax : + 91 79 26582100
CIN: L24230GJ1972PLC002126
Website: www.torrentpharma.com
Email: investorservices@torrentpharma.com

Extract of Consolidated audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025
(₹ in crores except per share data)

Particulars	Quarter Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2025	Quarter Ended March 31, 2024
	(Refer Note 2)		(Refer Note 2)
Total Income from operations	2959	11516	2745
Net Profit / (Loss) for the period before tax and exceptional items	689	2697	631
Net Profit / (Loss) for the period before tax and after exceptional items	665	2673	631
Net Profit / (Loss) for the period after tax and exceptional items	498	1911	449
Total Comprehensive Income	534	1818	450
Paid up equity share capital	169.23	169.23	169.23
Other equity excluding revaluation reserve*		7422	
Earnings per share (Face value of ₹ 5 each) (Not annualised):			
Basic	14.71	56.47	13.27
Diluted	14.71	56.47	13.27

*Other Equity excluding Revaluation Reserve as on March 31, 2024 was ₹ 6687 crores.

Notes :
1 Summary details of standalone audited financial results of Torrent Pharmaceuticals Limited:
(₹ in crores)

Particulars	Quarter Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2025	Quarter Ended March 31, 2024
Total Income from operations	2433	9682	2143
Profit before tax	622	2610	530
Profit after tax	474	1888	410
Total comprehensive income	469	1847	424


2 Figures for the quarter ended March 31, 2025 and March 31, 2024 represents the difference between the audited figures in respect to the full financial year and the published figures of nine months ended December 31, 2024 and December 31, 2023 respectively, which were subjected to limited review.

3 The Board of Directors in their meeting held on May 20, 2025, proposed a final equity dividend of ₹ 6 per equity share.

4 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the same, along with the notes, are available on www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website (URL: www.torrentpharma.com/investors/financial-info/quarterly-results/). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.


For TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
Sd/-
SAMIR MEHTA
Executive Chairman
DIN: 00061903

Place : Mumbai, Maharashtra
Date : May 20, 2025



CHEMCRIX ENTERPRISES LIMITED
(CIN: L01110GJ1996PLC029329)
Regd. Off.: 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle, Racecourse, Vadodara - 390007
Email: girishshah@chemcrux.com Ph.: 0265-2984803/2988903 Website: www.chemcrux.com

STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & YEAR ENDED 31ST MARCH 2025
(1) The financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 20th May 2025. The Statutory Auditors have expressed unmodified opinion on these results on the basis of their audit for the year ended 31st March 2025.
(2) The Board of Directors of the Company at their meeting held on 20th May, 2025 have recommended a dividend @ 10% (Re. 1/- per share) on the equity shares of Rs.10/- each for the year ended on 31st March 2025, subject to the approval of members in the ensuing Annual General Meeting.
(3) The Company's Results have been posted on the website of stock exchange BSE Limited at www.bseindia.com and on Company's website at www.chemcrux.com. The same can also be accessed by scanning QR Code given below:



By the order of the Board
For CHEMCRIX ENTERPRISES LIMITED
Sd/-
Mr. Girishkumar Shah (Whole Time Director)
(DIN:00469291)

Date: 20th May 2025
Place: Vadodara



INDIAN EXPRESS GROUP

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS KNOWLEDGE



FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

epaper.financialexpress.com New Delhi

